



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 माघ 1935 (श0)
(सं0 पटना 136) पटना, शुक्रवार, 7 फरवरी 2014

वित्त विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी 2014

विषय:- समस्तीपुर जिलान्तर्गत शाहपुर-पटोरी अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने के संबंध में ।

सं० को०प्र०/स्था०-02/2013-1313—जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, दक्षिणी गौंधी मैदान, पटना 800001 से समस्तीपुर जिलान्तर्गत शाहपुर-पटोरी अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने की अनुमति की मांग की गयी । महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, दक्षिणी गौंधी मैदान, पटना के पत्रांक - लो.ले. ई(पटना)/1743/03.01.005/2013-14 दिनांक 27.12.2013 द्वारा शाहपुर-पटोरी अनुमंडल स्थित भारतीय स्टेट बैंक, शाहपुर-पटोरी को सरकारी लेन-देन हेतु प्राधिकृत करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है । इस संबंध में सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी बैंकिंग विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना- 800001 के पत्र क्रमांक- Gbd/oth/90 दिनांक 21.12.2013 द्वारा शाहपुर-पटोरी शाखा से सरकारी लेन-देन की सहमति प्रदान की गयी है । फलस्वरूप समस्तीपुर जिलान्तर्गत शाहपुर-पटोरी अनुमंडल में कोषागार की स्थापना करते हुए कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कोषागार, शाहपुर-पटोरी दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी होगा ।

2. शाहपुर-पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य, जिनका निष्पादन जिला कोषागार, समस्तीपुर के माध्यम से हो रहा है, का निष्पादन दिनांक 01.04.2014 से कोषागार, शाहपुर-पटोरी से किया जायेगा । साथ ही, समस्त लेखा का संधारण कोषागार शाहपुर-पटोरी में ही किया जायेगा । शाहपुर-पटोरी अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवसृजित कोषागार, शाहपुर-पटोरी से ही अपना सरकारी नकदी कारोबार करेंगे ।

3. नवसृजित कोषागार, शाहपुर-पटोरी का स्थापना-व्यय मांग संख्या- 12 के अधीन मुख्य शीर्ष- 2054- खजाना एवं लेखा प्रशासन, लघुशीर्ष- 097, खजाना स्थापना, उपशीर्ष- 0001- कोषागार एवं अन्य उपकोषागार तथा विपत्र कोड संख्या- एन2054000970001 से विकलित होगा ।

4. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, शाहपुर-पटोरी अनुमंडल में अवस्थित उन सभी विभागों/कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की सूची एवं अन्य संबंधित अभिलेख नवसृजित कोषागार को उपलब्ध करा देंगे जिनका सभी नकदी कारोबार एतद् संबंधित कोषागार से ही किया जायेगा।

5. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, शाहपुर-पटोरी एवं आरक्षी अधीक्षक, समस्तीपुर/अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, शाहपुर-पटोरी द्वारा नवसृजित कोषागार की सुरक्षा के लिये आवश्यक पुलिस बल आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

6. सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीगण को यह निदेश दें कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम- 70, 84 एवं 117 में निहित प्रावधानों के अनुसार वे अपने हस्ताक्षर का नमूना कोषागार पदाधिकारी, शाहपुर-पटोरी को भेजेगें।

7. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर अपने स्तर पर समीक्षा कर शाहपुर-पटोरी कोषागार कार्यालय के लिये सृजित पदों का समुचित वितरण कोषागार समस्तीपुर एवं कोषागार शाहपुर-पटोरी के बीच करने का अनुदेश निर्गत करेंगे। साथ ही, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।

8. जबतक नवसृजित कोषागार, शाहपुर-पटोरी के लिये कोषागार पदाधिकारी का पदस्थापन वित्त विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तब तक के लिये जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर अपने स्तर से अधीनस्थ बिहार वित्त सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार लेखा सेवा के किसी एक पदाधिकारी को कोषागार पदाधिकारी के कार्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत करेंगे। कोषागार में पदस्थापित किये जाने वाले सहायक जिला लिपिक संवर्ग के कर्मी होते हैं। जिला पदाधिकारी लिपिकों के नियंत्री पदाधिकारी हैं। इसलिए शाहपुर-पटोरी कोषागार में आवश्यकता के अनुरूप लिपिक तथा पदचर का पदस्थापन समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि कोषागार, शाहपुर-पटोरी में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले लिपिक, लेखा परीक्षा में अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने चाहिये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजीव हंस,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 136-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>